

MACRO International Ltd.

Regd. Off. : 24/147, Plaza Kalpana, Birhana Road, Kanpur - 208001
H.O. : D-1, Moti Lal Atal Road, Behind Hotel Neelam, Jaipur- 302001
Tel. : 0141-2373164, 2373364 Email : miel1@rediffmail.com
CIN : L74120UP1993PLC015605

22.08.2022

To,
The Manager (Department of Corporate Affairs)
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400001

Ref: SCRIP CODE: 512600 SECURITY ID: MACINTR

Sub:Submission of newspaper clipping pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing
Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith Newspapers Clipping of extracts of unaudited Financial
Results for the quarter ended June 30th 2022 published in Financial express(English) and
Swatantra Chetna, (Hindi) for your perusal and kind consideration.

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You

Yours Faithfully,

For MACRO INTERNATIONAL LIMITED



SUDHIR KUMAR PARASRAMPURIA
(Managing Director)
DIN: 00358982

इन ब्रीफ

भूतपूर्व सैनिकों की कलाई में बांधा रक्षासूत्र

आवाहन को लेकर आज नवल पुलिस में तिरंगा यात्रा निकाली जिसमें सैकड़ों की तादात में पुलिसकर्मी व जवान हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर क्षेत्र में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान पुलिसकर्मी बाजार में मौजूद लोगों को भी झंडे का वितरण किया और हर घर तिरंगा अभियान के महत्वता को बताते हुए तिरंगा लगाने की अपील की। यह तिरंगा यात्रा नवल से शुरू होकर आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए नवल पर ही समाप्त की गई।

साढ़ पुलिस ने निकाली गई तिरंगा यात्रा

वेतना कार्यालय भीतरगाव साढ़। साढ़ पुलिस के द्वारा अमृत महोत्सव पर कस्बे में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में साढ़ थानाध्यक्ष थाने से संबंधित समस्त चौकी प्रभारी एवं पुलिसकर्मी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। साढ़ कस्बे में शुक्रवार को साढ़ थानाध्यक्ष जगदीश प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में थाना समेत समस्त चौकी से पुलिसकर्मी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा थाना परिसर से लेकर करीब तीन किलोमीटर से होकर कस्बे का भ्रमण करते हुए वापस हुई।

अमृत महोत्सव के लिए सजाया गया ककवन थाना परिसर

वेतना कार्यालय ककवन। अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर शासन की मशा के अनुरूप ककवन थाना प्रभारी प्रेमचंद केनीजिया द्वारा 1 सप्ताह तक मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव के लिए स्वर्णिम तैयारी करते हुए ककवन थाना परिसर को रंग-दिरंगी लाइट झालर और फूलों से इस तरह सजाया जा स नई नवेली दुल्हन श्रृंगार किए खड़े हो और इसी के साथ परिसर में बज रहे राष्ट्रीय गीतों की माहिलों को सुहाना बना रही है। वहीं लोगों को मनाते महोत्सव की तैयारी में दिल्ली रूकिले के सभी थानों में ककवन थाना परिसर में सबसे अधिक आकर्षक साज सजा की गई है।

गरुकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ

विद्यालयों के बच्चे, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं गणमान्य नागरिकों ने बढ़-चढ़ कर किया प्रतिभाग

की कानून व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

खून ना होने के कारण ब्लड कानपुर से मंगाया गया और ब्लड चढ़ाते समय उसकी मोत हो गई जबकि पैदा हुई लड़की सुरक्षित है।

नंबर रेल प्रबंधक (इंजी०), इज्जतनगर मुजाधि/डब्ल्यू-143
यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं. 09794846955 पर SMS कर पाठियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करे।

Macro International Ltd.

Regd. Office : 24/147, Plaza Kalpana, Ground Floor, Birhana Road, Kanpur - 208 001
Tel. : 0141-2373164 . Fax : 0141-2379344 . E-mail : miel1@rediffmail.com
CIN : L74120UP1993PLC15605

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

S. No.	Particulars	Quarter ended			
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2021
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Income from Operations	8.79	5.73	5.14	21.08
2	Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(1.46)	(1.18)	0.29	(1.70)
3	Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(1.46)	(1.18)	0.29	(1.70)
4	Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(0.99)	(1.14)	0.21	(1.71)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	(0.99)	(1.14)	0.21	(1.71)
6	Paid up equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	398.96	398.96	398.96	398.96
7	Basic and diluted EPS (Not Annualized) (Rs.)				
	Basic	(0.03)	(0.01)	0.01	(0.04)
	Diluted	(0.03)	(0.01)	0.01	(0.04)

- Notes :**
- The above results have been reviewed and recommended for the adoption by the Audit Committee to the Board of Directors and have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 11th August, 2022.
 - The above is an extract of the detailed format of Quarterly audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.miel.co.in)

By order of the Board
For **MACRO INTERNATIONAL LIMITED**
(SUDHIR KUMAR PARASRAMPURIA)

Managing Director
DIN: 00358982

Place : Kanpur
Date : 11.08.2022

Mumbai
11th August, 2022

Managing Director
DIN: 00181636

Macro International Ltd.

Registered Office: 24/147, Plaza Kalpana, Ground Floor, Birhana Road, Kanpur - 208 001
Tel.: 0141-2373164 Fax: 0141-2379344 E-mail: miel_1@rediffmail.com
CIN: L74120UP1993PLC15605

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

Particulars	(Rs. In Lacs)			
	Quarter ended			Year ended
	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
Income from Operations	8.79	5.73	5.14	21.08
Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	(1.46)	(1.18)	0.29	(1.70)
Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(1.46)	(1.18)	0.29	(1.70)
Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	(0.99)	(1.14)	0.21	(1.71)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	(0.99)	(1.14)	0.21	(1.71)
Paid up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each)	398.96	398.96	398.96	398.96
Basic and diluted EPS (Not Annualized) - (Rs.)				
Basic	(0.03)	(0.01)	0.01	(0.04)
Diluted	(0.03)	(0.01)	0.01	(0.04)

Notes:
The above results have been reviewed and recommended for the adoption by the Audit Committee to the Board of Directors and have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 11th August, 2022.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.miel.co.in).

By order of the Board
For **MACRO INTERNATIONAL LIMITED**
(SUDHIR KUMAR PARASRAMPURIA)

Place: Kanpur
Date: 11.08.2022

Managing Director
DIN: 00358982

Unaudited Financial Results as on 30th June 2022

(₹ IN CRORES)

Particulars	Quarter Ended		Year ended	
	30th June 2022	31st Mar 2022	30th June 2021	31st Mar 2022
Income from Operations	10,462	9,004	9,804	37,128
Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	8,101	7,866	7,510	29,917
Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	161	-670	117	178
Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	130	-550	100	178
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax))	1.72	1.66	2	1.66
Paid up equity share capital (Face Value of Rs. 10/- each)	19,213	18,954	18,725	18,954
Basic and diluted EPS (Not Annualized) - (Rs.)	0.81	-3.35	0.6	1.18

filed with the stock exchange. Other financial results are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.miel.co.in).

For and on behalf of the Board of Directors

the Board at their meeting held on 11th August, 2022.

Madhulika Bhaskar
CMD - Additional Charge
DIN: 09571410

W INDIA ASSURANCE

एशियोरन्स कंपनी लिमिटेड
India Assurance Co. Ltd

WILSON ROAD, MUMBAI - 400 022



The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

The Indian EXPRESS
— JOURNALISM OF COURAGE —